

## संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (तीन क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(तीन क) किसी न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति पर, यदि वेतनवृद्धि ऐसे न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति दिनांक के अगले दिन को देय हो, तब उसकी पेंशन, ऐसे न्यायिक अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन में वार्षिक वेतनवृद्धि नोशनल (काल्पनिक) रूप से जोड़कर, रुपये 2,24,100/- की वर्टिकल सीमा के अधधीन रहते हुए, नियत की जाएगी.”

F. No. 4989-XXI-B (One)-2024.—WHEREAS, in compliance of directions made by Hon'ble the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 643/15, All India Judges Association Vs. Union of India and Others, order dated, 19<sup>th</sup> May 2023 and in exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Judicial Services (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits) Rules, 2022, namely :—

## AMENDMENT

In the said rules, in rule 11, in sub-rule (1), for clause (iiia), the following clause shall be substituted, namely :—

"(iiia) Upon retirement of a Judicial Officer, if the annual increment becomes due on the next day of retirement date of such Judicial Officer, then his pension shall be fixed by adding that annual increment notionally to the last pay drawn by such Judicial Officer at the time of retirement subject to the vertical ceiling of Rs. 2,24,100/-".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 20<sup>th</sup> December 2024

A-8861.—In exercise of the powers conferred by Articles 225 of the Constitution of India, Section 54 of the States Reorganisation Act, 1956, clauses 27 and 28 of the Letters Patent, the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008, which shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Official Gazette (Extra-ordinary).

## AMENDMENTS

1. In chapter-II, for Rule 30-A, the following rule shall be substituted, namely :—

"30A. An application for correction of typographical error / clarification / modification / for extension of time in an order / judgment passed in Writ Petition / Writ Appeal, which do not go to the merits of the matter, supported by an affidavit and with documents, if any, shall be registered as an I. A. (Interlocutory Application) in the main case."

